

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 2—अप्रैल 8, 2016 (चैत्र 13, 1938)

No. 14]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 2—APRIL 8, 2016 (CHAITRA 13, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली—110001, दिनांक 24 फरवरी 2016

सं. आरएस.46/2016/7—कार्मिक—राज्य सभा टेलीविजन में प्रतिनियुक्ति आधार पर सहायक निदेशक के रूप में कार्यरत श्री सुनील कुमार शर्मा को 24.02.2016 के अपराहन से कार्यमुक्त किया जाता है और उनकी सेवाएं वापस लोक सभा सचिवालय के सुपुर्द की जाती हैं।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 मार्च 2016

संख्या ए—19014/02/2016—प्रशासन—राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में डॉ. वेंकटेश्वरन् एल को वेतन बैंड—3 के वेतनमान—15,600—39,100/— रु. + ग्रेड—पे 5,400/— रु. में संविदा आधार पर दिनांक 11 मार्च, 2016 के पूर्वाह्न से तीन वर्ष की अवधि के लिए (एक वर्ष की परीक्षा अवधि सहित) जिसे पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या अगले आदेशों के जारी होने तक, जो भी पहले हो, सहायक निदेशक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आर. के. जैन, अवर सचिव

अंतरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560 231, दिनांक 18 फरवरी 2016

सं. 6/1(1)/2016-I—राष्ट्रपति, अंतरिक्ष विभाग के अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.07.2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं:-

क्रम सं.	नाम (श्री/श्रीमती/कु.)	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
1.	एम.एम. करीमी	कनिष्ठ अभियंता	सहायक अभियंता
2.	एन.पी. अजमेरी	वरिष्ठ तकनीशियन-बी	कनिष्ठ अभियंता
3.	एम.एस. घोघरा	वरिष्ठ तकनीशियन-ए	वरिष्ठ तकनीशियन-बी
4.	आई.एस. परमार	वरिष्ठ तकनीशियन-ए	वरिष्ठ तकनीशियन-बी
5.	अनिल कुमार गुप्ता	तकनीकी सहायक	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-ए
6.	सैय्यद एम. रफीक	तकनीशियन-जी	वरिष्ठ तकनीशियन-ए
7.	एच.ए. श्रीमाली	तकनीशियन-डी	तकनीशियन-एफ

बी. अनिल कुमार, उप सचिव

सं. 6/1(1)/2016-I—राष्ट्रपति, अंतरिक्ष विभाग के अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को नीचे दिये गये पदों पर स्थानापन्न रूप में प्रत्येक के सामने दी गई तिथियों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु.	पद जिस पर पदोन्नति की गई	पदोन्नति की तिथि
1.	विरेंदर कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी.	01.07.2014
2.	डी.बी. दवे	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी.	01.07.2014
3.	डॉ नीरजा शर्मा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	08.07.2014
4.	राज एस शाह	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	01.07.2014

बी. अनिल कुमार, उप सचिव

सं. 6/1(2)/2016-I—राष्ट्रपति, अंतरिक्ष विभाग के अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों का सेवा से त्यागपत्र प्रत्येक के सामने दी गयी तारीखों के अपराह्न से स्वीकार करते हैं:-

क्रम सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु.	पद	कार्यमुक्ति की तिथि
1.	देवेन जी. छेड़ा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	25.07.2014
2.	प्रितेश कुमार सिन्हा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	30.05.2014

बी. अनिल कुमार, उप सचिव

सं. 6/1(2)/2016-I—अंतरिक्ष विभाग के अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, अहमदाबाद में श्री के. मुथुरामन, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई. ने स्वैच्छिक रूप में सेवा निवृत्ति स्वीकार होने के परिणामस्वरूप दिनांक 05.08.2014 के पूर्वाह्न से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

बी. अनिल कुमार, उप सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 फरवरी 2016

संख्या ए. 12025(i)/1/2007-प्रशा.—*(वि.वि.)—राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में सहायक विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड IV) श्रीमती सुनीता आनंद को विधि और न्याय मंत्रालय के उक्त विभाग में उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड III) के पद पर रु. 15,600—39,100/— के वेतन बैंड और रुपए 7,600/— के ग्रेड वेतन में दिनांक 16 फरवरी, 2016 की पूर्वाह्न से तीन माह की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति उन्हें उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड III) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति, के लिए न तो कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा प्रदत्त तदर्थ सेवाओं की गणना इस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

बी.एम. शर्मा, उप सचिव

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 2016

सं. ए-12025/2/2012-प्रशा.I (वि.का.)—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर श्री शुभ्र ज्योति मुखर्जी को दिनांक 10.02.2016 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, शाखा सचिवालय, कोलकाता में वेतन बैंड-3 (रु. 15,600—39,100/—) में रु. 6,600/— ग्रेड वेतन में सहायक विधि सलाहकार के ग्रेड (भारतीय विधि सेवा के विधि सलाहकार सेवा संवर्ग का ग्रेड-IV) में नियुक्ति करते हैं।

अनिल कुमार जोशी, उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 4 मार्च 2016

सं. I-18011/02/2016-आई.पी.एस.-4—राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पुलिस सेवा के तमिलनाडू संवर्ग के 2012 के बैच के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के आगे उल्लिखित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में स्थाई करते हैं:-

क्र. सं.	आई.एस.पी. परिविक्षाधिनों के नाम	स्थायी किए जाने की तिथि
1.	श्री अरुणशक्ति कुमार पी., आई.पी.एस. (तमिलनाडु : 2012)	03.09.2014
2.	श्री देशमुख शेखर संजय, आई.पी.एस. (तमिलनाडु : 2012)	24.12.2014
3.	श्री जॉर्जी जॉर्ज, आई.पी.एस. (तमिलनाडु : 2012)	24.12.2014
4.	श्री ओमप्रकाश मीणा, आई.पी.एस. (तमिलनाडु : 2012)	24.01.2015
5.	सुश्री रोहिणी प्रियदर्शिनी पी., आई.पी.एस. (तमिलनाडु : 2012)	03.09.2014
6.	श्री विक्रान्त पाटिल, आई.पी.एस. (तमिलनाडु : 2012)	24.12.2014
7.	सुश्री दीपा गनीगर एस., आई.पी.एस. (तमिलनाडु : 2012)	24.12.2014

धीरज कुमार सिंह, अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस.-4)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 मार्च 2016

सं. 39019/04/2013-स्था.(ख)—65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर डॉ. (श्रीमती) पी. किलेमशुंगला ने 29 फरवरी, 2016 के अपराह्न से संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का पद त्याग दिया है।

देवेश चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 2016

सं. 14013/01/2015-अ.भा.से.III—भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के महाराष्ट्र राज्य संवर्ग के 2003 बैच के सदस्य श्री बालासाहब कोल्से को दिनांक 19.01.2016 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं।

कविता वी पद्मनाभन, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 29 दिसंबर 2015

सं. 14012/16/2011-अ.भा.से.—III—भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, हरियाणा संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य श्री रवि प्रकाश गुप्ता को दिनांक 26.07.2015 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं।

राजीव जैन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 2016

सं. 14012/10/2012-अ.भा.से.III—भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के गुजरात राज्य संवर्ग के 2008 बैच की सदस्य सुश्री सैदिन्पुई छाक्छु को दिनांक 01.09.2010 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं।

राजेश कुमार यादव, अवर सचिव

दिनांक 1 मार्च 2016

सं. 23012/01/2015-आ.भा.से.—III—श्रीमती आंचल सूद, आई.ए.एस (एमएच : 2014) को अपना नाम आंचल सूद से बदलकर आंचल गोयल करने की अनुमति दी गई है। तदनुसार, सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए उन्हें आंचल गोयल के रूप में जाना जाएगा।

राजेश कुमार यादव, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च 2016

सं. ए-32015/8/2006-संवर्ग (प्रशा.IV)—वरिष्ठता कोटा के लिए वर्ष, 2015 के लिए केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, निम्नलिखित सहायक अनुभाग अधिकारियों को केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अनुभाग अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) के रूप में, वेतन बैंड-2 एवं ग्रेड वेतन 4,800/- रुपए में दिनांक 16.02.2016 से कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में नियुक्त करते हैं।

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती)	चयन सूची वर्ष
1.	शशि चावला	2015
2.	उमा शर्मा	2015
3.	सरोज अरोड़ा	2015
4.	आर. बालासुब्रमाणियन	2015

कुलभूषण मल्होत्रा, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर 2013

सं. 29/2013 (ए-32019/01/2013-स्था-I)—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 अगस्त, 2013 के का.ज्ञा. सं. 6/1/2012-सी एस. I (एस) द्वारा संयुक्त सीमित विभागीय परीक्षा 2009, 2010 तथा 2011 के आधार पर परीक्षा कोटा में वर्ष

2011 हेतु अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में शामिल किए जाने हेतु उन्हें नामित किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति द्वारा श्री बालम सिंह मनराल, नियमित सहायक को दिनांक 06.09.2013 के पूर्वाह्न से वाणिज्य विभाग के संवर्ग में अनुभाग अधिकारी ग्रेड पर नियुक्त किया जाता है:-

2. यह नियुक्त निम्नलिखित न्यायिक मामलों के परिणाम के अध्यक्षीन होगी:-

- (i) श्री राजीव आर तथा अन्य बनाम भारत संघ द्वारा सीएटी, नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 4135/2012, एम ए सं. 3477/2012
- (ii) श्री एम आर मीणा तथा अन्य बनाम भारत संघ द्वारा सीएटी, नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 4082/2012 एवं एम ए सं. 3448/2012
- (iii) श्री शांति लाल बौरसी तथा बनाम भारत संघ द्वारा सीएटी, नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 4141/2012

जी.बी. उपाध्याय, उप सचिव

सं. 31/2013 (ए-32019/01/2013-ई-1)---संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा 2009, 2010 तथा 2011 के आधार पर परीक्षा कोटा हेतु वर्ष 2009 के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में शामिल किए जाने हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13 अगस्त, 2013 के का.ज्ञा. सं. 6/1/2012-सी एस I (एस) द्वारा उन्हें नामित किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति द्वारा श्री के. खातमिनथांग, नियमित सहायक को दिनांक 2 सितम्बर, 2013 (पूर्वाह्न) से वाणिज्य विभाग के संवर्ग में अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्त किया जाता है:-

2. यह नियुक्ति निम्नलिखित अदालती मामलों के परिणाम के अध्यक्षीन होगी:-

- (i) श्री राजीव आर तथा अन्य बनाम भारत संघ द्वारा कैट, नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 4135/2012, एम ए सं. 3477/2012
- (ii) श्री एम आर मीणा तथा अन्य बनाम भारत संघ द्वारा कैट, नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 4082/2012 एवं एम ए सं. 3448/2012
- (iii) श्री शांति लाल बौरसी तथा अन्य बनाम भारत संघ द्वारा कैट, नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 4141/2012

जी.बी. उपाध्याय, उप सचिव

दिनांक 26 सितम्बर 2013

सं. 28/2013 (ए-32019/1/2013-स्था-1)---कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 अगस्त, 2013 के का.ज्ञा. सं. 6/1/2012-सी एस-I (एस) द्वारा संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2009, 2010 तथा 2011 के आधार पर परीक्षा कोटा में वर्ष 2011 हेतु अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में शामिल किए जाने हेतु उन्हें नामित किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित स्थाई सहायकों/स्टेनोग्राफरों 'सी' (पीए) को दिनांक 02/09/2013 (पूर्वाह्न) से वाणिज्य विभाग के संवर्ग में अनुभाग अधिकारी ग्रेड पर नियुक्त किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम
1.	श्री रमेश चंद्र
2.	श्री श्यामल कुमार बिट
3.	श्री एंटनी जेवियर
4.	श्री उत्पल कुमार भट्टाचार्य
5.	श्री ओम प्रकाश
6.	श्री प्रेम नाथ
7.	श्री आजाद लाल पासी

2. यह नियुक्ति निम्नलिखित अदालती मामलों के परिणाम के अध्यक्षीन होगी:-

- (i) श्री राजीव आर तथा अन्य बनाम भारत संघ द्वारा कैट, नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 4135/2012, एम ए सं. 3477/2012

- (ii) श्री एम आर मीणा तथा अन्य बनाम भारत संघ द्वारा कैट, नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 4082/2012 एवं एम ए सं. 3448/2012
- (iii) श्री शांति लाल बौरसी तथा अन्य बनाम भारत संघ द्वारा कैट, नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 4141/2012

जी.बी. उपाध्याय, उप सचिव

सं. 30/2013 (ए-32019/01/2013-ई-1)—संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा 2009, 2010 तथा 2011 के आधार पर परीक्षा कोटा हेतु वर्ष 2010 के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में शामिल किए जाने हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19 अगस्त, 2013 के का.ज्ञा.सं. 6/1/2012-सी एस.-I (एस) द्वारा उन्हें नामित किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित नियमित सहायक/निजी सचिव को उनके नामों के समक्ष दर्शाए गए तिथियों से वाणिज्य विभाग के संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त किया जाता है:-

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री मुकेश कुमार	02.09.2013 (अपराहन)
2.	सुश्री रीता कुमारी	21.08.2013 (पूर्वाहन)

2. यह नियुक्ति निम्नलिखित अदालती मामलों के परिणाम के अध्यक्षीन होगी:-

- (i) श्री राजीव आर तथा अन्य बनाम भारत संघ द्वारा कैट, नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 4135/2012, एम ए सं. 3477/2012
- (ii) श्री एम आर मीणा तथा अन्य बनाम भारत संघ द्वारा कैट, नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 4082/2012 एवं एम ए सं. 3448/2012
- (iii) श्री शांति लाल बौरसी तथा अन्य बनाम भारत संघ द्वारा कैट, नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 4141/2012

जी.बी. उपाध्याय, सचिव

सं. 33/2013 (ए-32019/01/2013-स्था-1)—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19 अगस्त, 2013 के का.ज्ञा. सं. 6/1/2012-सी एस.-I (एस) द्वारा संयुक्त सीमित विभागीय परीक्षा 2009, 2010 तथा 2011 के आधार पर परीक्षा कोटा में वर्ष 2010 हेतु अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में शामिल किए जाने हेतु उन्हें नामित किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति द्वारा श्री श्यामल सिल, स्थाई सहायक को दिनांक 13.09.2013 के पूर्वाहन से वाणिज्य विभाग के संवर्ग में अनुभाग अधिकारी ग्रेड पर नियुक्त किया जाता है:-

2. यह नियुक्ति निम्नलिखित न्यायिक मामलों के परिणाम के अध्यक्षीन होगी:-

- (i) श्री राजीव आर तथा अन्य बनाम भारत संघ द्वारा सीएटी, नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 4135/2012, एम ए सं. 3477/2012
- (ii) श्री एम आर मीणा तथा अन्य बनाम भारत संघ द्वारा सीएटी, नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 4082/2012 एवं एम ए सं. 3448/2012
- (iii) श्री शांति लाल बौरसी तथा अन्य बनाम भारत संघ द्वारा सीएटी, नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 4141/2012

जी.बी. उपाध्याय, उप सचिव

सं. 34/2013 (ए-32019/1/2013-स्था-1)—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 अगस्त, 2013 के का.ज्ञा. सं. 6/1/2012-सी एस.-I (एस) द्वारा संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2009, 2010 तथा 2011 के आधार पर परीक्षा कोटा में वर्ष 2011 हेतु अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में शामिल किए जाने हेतु उन्हें नामित किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित स्थाई सहायकों/स्टेनोग्राफरों 'सी' (पीए) को उनके नाम के आगे उल्लिखित तारीखों से वाणिज्य विभाग के संवर्ग में अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्त किया जाता है:-

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	सुश्री उषा श्रीनिवासन	10.09.2013 (पूर्वाहन)
2.	सुश्री निवेदिता रॉय चौधरी	12.09.2013 (पूर्वाहन)
3.	श्री विकास मोहन	13.09.2013 (अपराहन)
4.	सुश्री मेरीकुट्टी अब्राहम	16.09.2013 (पूर्वाहन)

2. यह नियुक्ति निम्नलिखित अदालती मामलों के परिणाम के अध्यक्षीन होगी:—

- (i) श्री राजीव आर तथा अन्य बनाम भारत संघ द्वारा कैट, नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 4135/2012, एम ए सं. 3477/2012
- (ii) श्री एम आर मीणा तथा अन्य बनाम भारत संघ द्वारा कैट, नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 4082/2012 एवं एम ए सं. 3448/2012
- (iii) श्री शांति लाल बौरसी तथा अन्य बनाम भारत संघ द्वारा कैट, नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 4141/2012

जी.बी. उपाध्याय, उप सचिव

दिनांक 1 अक्टूबर 2013

सं. 37/2013 (ए-32019/01/2013-स्था-I)—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13 अगस्त, 2013 के का.ज्ञा. सं. 6/1/2012-सी एस-I एस द्वारा संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2009, 2010 तथा 2011 के आधार पर परीक्षा कोटा में वर्ष 2009 हेतु अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में शामिल किए जाने हेतु उन्हें नामित किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति द्वारा श्री नरेंद्र कुमार साहू, नियमित सहायक को दिनांक 18/09/2013 पूर्वाह्न से वाणिज्य विभाग के संवर्ग में अनुभाग अधिकारी ग्रेड पर नियुक्त किया जाता है:—

2. यह नियुक्ति निम्नलिखित न्यायिक मामलों के परिणाम के अध्यक्षीन होगी:—

- (i) श्री राजीव आर तथा अन्य बनाम भारत संघ द्वारा सीएटी, नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 4135/2012, एम ए सं. 3477/2012
- (ii) श्री एम आर मीणा तथा अन्य बनाम भारत संघ द्वारा सीएटी, नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 4082/2012 एवं एम ए सं. 3448/2012
- (iii) श्री शांति लाल बौरसी तथा अन्य बनाम भारत संघ द्वारा सीएटी, नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 4141/2012

जी.बी. उपाध्याय, उप सचिव

दिनांक 1 जनवरी 2016

सं. 01/2016 (ए-32012/1/2015-ई-I—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23 दिसम्बर 2015 के आदेश सं. 5/3/2015-सी एस-I (यू) के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार (सीएसएस सं. 8866) को दिनांक 28 दिसम्बर 2015 (अपराह्न) से दिनांक 30 जून 2016 तक की अवधि या जब तक पद नियमित आधार पर नहीं भरा जाता, या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, के लिए वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में तदर्थ आधार पर सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर तदर्थ आधार पर उपर्युक्त नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें वही होंगी जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23 दिसम्बर 2015 का. ज्ञा. सं. 5/3/2015-सीएस-I (यू) में उल्लिखित हैं।

जी.बी. उपाध्याय, उप सचिव

दिनांक 4 जनवरी 2016

सं. 2/2016 (ए-32012/6/2015-ई-I—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 18 जून 2015 के का. ज्ञा. सं. 5/6/2011-सी एस-I (यू) के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के निम्नलिखित अधिकारियों को वर्ष 2003 के लिए सीएसएस के ग्रेड I (अवर सचिव) की चयन सूची में शामिल किया गया है और उन्हें नियमित आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है:—

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	सीएसएस सं.
1.	श्रीमती वर्षा सिन्हा	4378-ए
2.	श्री सौम्य चट्टोपाध्याय	4645-ए
3.	श्री एसपी राय	4726-ए

2. चयन सूची 2003 में उपर्युक्त समावेशन एवं सीएसएस के ग्रेड I (अवर सचिव) के रूप में नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें वही होंगी जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 अगस्त 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/16/2007—सी एस—I एवं दिनांक 18 जून 2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/6/2011—सीएस I (यू) में निहित हैं।

जी.बी. उपाध्याय, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 2013

सं. 25/2013 (ए-32019/01/2013—स्था—I)—संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा 2009, 2010 तथा 2011 के आधार पर परीक्षा कोटा हेतु वर्ष 2009 के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में शामिल किए जाने हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13 अगस्त, 2013 के का.ज्ञा.सं. 6/1/2012—सी—I (एस) द्वारा नामांकित किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित नियमित सहायकों को 13 अगस्त, 2013, पूर्वाह्न से वाणिज्य विभाग के संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त किया जाता है:—

क्रम सं.	नाम	जन्म की तारीख
1.	श्री सोनू कुमार	21.12.1981
2.	श्री नील माधव विश्वास	10.05.1960
3.	श्री संजीव कुमार काला	11.04.1963
4.	श्री दीपक शर्मा	21.07.1975
5.	श्री संजय केरकेट्टा	01.01.1970

2. यह नियुक्ति निम्नलिखित अदालती मामलों के परिणाम के अधधीन होगी:—

- श्री राजीव आर तथा अन्य बनाम भारत संघ द्वारा कैट, नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 4135/2012, एम ए सं. 3477/2012
- श्री एम आर मीणा तथा अन्य बनाम भारत संघ द्वारा कैट, नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 4082/2012 एवं एम ए सं. 3448/2012
- श्री शांति लाल बौरसी तथा अन्य बनाम भारत संघ द्वारा कैट, नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 4141/2012

राजीव कुमार, अवर सचिव

दिनांक 23 जनवरी 2014

सं. 11/2014 (ए-32019/1/2013—स्था—I)— कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19 अगस्त, 2013 के का. ज्ञा. सं. 6/1/2012—सी एस—I (एस) द्वारा संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा 2009, 2010 तथा 2011 के आधार पर परीक्षा कोटा में वर्ष 2010 हेतु अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में शामिल किए जाने हेतु उन्हें नामित किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति द्वारा श्री सचिदानन्द भारद्वाज नियमित सहायक को दिनांक 1 जनवरी, 2014 (पूर्वाह्न) से वाणिज्य विभाग के संवर्ग में अनुभाग अधिकारी ग्रेड पर नियुक्त किया जाता है:—

2. यह नियुक्ति निम्नलिखित अदालती मामलों के परिणाम के अधधीन होगी:—

- श्री राजीव आर तथा अन्य बनाम भारत संघ द्वारा कैट, नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 4135/2012, एम ए सं. 3477/2012
- श्री एम आर मीणा तथा अन्य बनाम भारत संघ द्वारा कैट, नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 4082/2012 एवं एम ए सं. 3448/2012
- श्री शांति लाल बौरसी तथा अन्य बनाम भारत संघ द्वारा कैट, नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 4141/2012

राजीव कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च 2016

सं. ए. 12025/62/2013—सीएचएस—III—राष्ट्रपति महोदय, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. रेखा भारती को दिनांक 17.02.2014 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में प्रसूति और स्त्री रोग की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

सं. ए. 12025/62/2014—सीएचएस—III—राष्ट्रपति महोदय, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. पूजा अरोड़ा मृग को दिनांक 03.07.2014 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में त्वचा और यौन रोग की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

सं. ए. 12025/74/2014—सीएचएस—III—राष्ट्रपति महोदय, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. भूपिंदर सिंह को दिनांक 01.08.2014 के अपराह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में औषध की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

दिनांक 15 मार्च 2016

सं. ए. 12025/145/2014—सीएचएस—III—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. शुभांगी रमेश बावीस्ककर को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के लोक स्वास्थ्य उप-संवर्ग में लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ग्रेड-II (कनिष्ठ वेतनमान) के पद पर 16.03.2015 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसम्बर 2015

सं. 32014/3/2015—स्था.—1—कार्मिक एवं प्रशिक्षण के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/15/2015—सीएस-II (ए) दिनांक 11.12.2015 के द्वारा निजी सचिव वर्ग के चयनित सूची-2014 (वरिष्ठता कोटा) में समावेश के फलस्वरूप, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित नियमित व्यक्तिगत सहायकों को उनके नाम के आगे दी गयी तिथियों से निजी सचिव के पद पर वेतन बैंड -2 (रु. 9,300—34,800/-) ग्रेड पे 4,800/- में सहर्ष नियुक्त किया जाता है:-

क्रम. सं.	अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तारीख
1	श्री दर्विंदर पुरी	11.12.2015(पूर्वा.)
2	श्री सुरेश कुमार	11.12.2015(पूर्वा.)
3	श्रीमति सुषमा	18.12.2015(अप्र.)
4	श्री अमित सरीन	17.12.2015(पूर्वा.)
5	श्रीमति तारा कपूर	28.12.2015(पूर्वा.)
6	श्री के जे वी एन मोहना राव	28.12.2015(अप्र.)

सुधीर कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 जनवरी 2016

सं. 32013/2/2015—स्था.—1—कार्मिक एवं प्रशिक्षण के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/2/2015—सीएस-II (ए) दिनांक 30.12.2015 के द्वारा वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव वर्ग के चयनित सूची-2015 (पार्ट) में समावेश के फलस्वरूप, राष्ट्रपति द्वारा सुश्री अचला, वाणिज्य विभाग में नियमित प्रधान निजी सचिव को कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर नियमित रूप से दिनांक 01.01.2016 के पूर्वाह्न से सहर्ष नियुक्त किया जाता है।

ब्रजेश गोडरा, अवर सचिव

दिनांक 10 फरवरी 2016

सं. 32014/3/2015—स्था.—1—निजी सचिव संवर्ग की संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा-2014 में उत्तीर्ण होने पर व कार्मिक एवं प्रशिक्षण के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/10/2014—सीएस-II (ए) दिनांक 19.01.2016 के द्वारा निजी सचिव वर्ग के चयनित

सूची-2014 में समावेशित होने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित नियमित व्यक्ति सहायकों को उनके नाम के आगे दी गयी तिथियों से निजी सचिव के पद पर वेतन बैंड-2 (रु. 9,300—34,800/-) ग्रेड पे 4,800/- में कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग में नियमित रूप से सहर्ष नियुक्त किया जाता है:-

सुश्री रमा विशाल मल्होत्रा	19.01.2016 (पूर्वा.)
श्री संजीव खन्ना	21.01.2016 (अप्र.)
श्री शंकर एन.	25.01.2016 (पूर्वा.)

ब्रजेश गोडरा, अवर सचिव

दिनांक 26 फरवरी 2016

सं. 32014/3/2015-स्था.-1—कार्मिक एवं प्रशिक्षण के कार्यालय ज्ञापन सं 4/15/2015-सीएस-II (ए) दिनांक 11.12.2015 के द्वारा निजी सचिव वर्ग के चयनित सूची-2014 (वरिष्ठता कोटा) में समावेश के फलस्वरूप, राष्ट्रपति द्वारा श्रीमति सुरजीत कौर, नियमित व्यक्ति सहायक को निजी सचिव के पद पर वेतन बैंड-2 (रु. 9,300—34,800/-) ग्रेड पे 4,800/- में दिनांक 17.02.2016 के पूर्वाहन से कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग में नियमित रूप से सहर्ष नियुक्त किया जाता है।

ब्रजेश गोडरा, अवर सचिव

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 फरवरी 2016

सं. 2/2016. ए-32014/1/2014-प्रशासन—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.08.2015 के आदेश सं. 6/10/2015-सीएस.I(एस) द्वारा वर्ष 2015 के लिए वरीयता कोटा (एसक्यू) में केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की प्रवर सूची में नाम सम्मिलित होने और दिनांक 17.2.2016 के आईएसटीएम के पत्र सं. ए. 33021/08/2015-आईएसटीएम द्वारा यथा संसूचित लेवल 'बी' के प्रशिक्षण को इनके द्वारा सफलतापूर्वक पूरा करने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति ने श्रीमती लक्ष्मी रावत को 17.2.2016 से अगले आदेश तक युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) संवर्ग में वेतन बैंड-2 (9,300—34,800/-) 4,800/- रु. ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी (सीएसएल एजी सं. 2003/1495) के रूप में नियुक्त किया है।

आई.बी. लेंका, अवर सचिव

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 2016

संख्या ए-19011/1/2016-ईएसटीटी.—मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुसरण में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 2016 के आदेश संख्या 33/01/2016-ईओ (एसएम-1) के अनुसार श्री आशीष शर्मा, भा.प्र.से. (एमएच : 1997) ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार में दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपराह्न में संयुक्त सचिव का कार्यभार संभाल लिया है।

प्रभा शर्मा, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 दिसम्बर 2015

सं. 48011/5/2015-स्था.—सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की दिनांक 27.10.2015 की अधिसूचना संख्या ए-42018/53/2009-स्था.-I के अनुसरण में ग्यारह (11) संयुक्त संवर्ग के पदों अर्थात् निदेशक के चार पद (ग्रेड वेतन: रु. 7,600/-), उप-निदेशक के दो पद (ग्रेड वेतन: रु. 6,600/-), सहायक निदेशक के पांच पद (ग्रेड वेतन: रु. 5,400/-) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) को सौंपे गए हैं जो पूर्व में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एसजेएंडई) के प्रशासनिक नियंत्रण में थे जिन्हें दिनांक 27.10.2015 से जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत लिया गया है।

दिलिप कुमार.एम, उप-सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्टूबर 2015

सं. 19011/8/2015-स्था.—दिनांक 14.10.2015 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 4/8/15-सीएस.आई(डी) के अनुसरण में, श्री गोपाल साधवानी का नाम वर्ष 2011 के केंद्रीय सचिवालय सेवा की चयन ग्रेड (उप सचिव) चयनित सूची में शामिल है

बशर्ते माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिका सं. 6597/2012 तथा 3003/2013 के अंतिम परिणाम तथा संबंधित मामले में किसी अन्य सक्षम न्यायालय के किसी आदेश का विषय है।

रीमा शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 31 दिसम्बर 2015

सं. 19011/14/2015—स्था.—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.12.2015 के का.ज्ञा.सं. 3/3/2015—सीएस.II (ए) के माध्यम से प्रधान निजी सचिव के पद पर उनकी पदोन्नति के फलस्वरूप तथा इसके पश्चात केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के दिनांक 22.12.2015 के उनके का.आ.सं. 3/2/14—प्रशासन—III(सीईए) द्वारा कार्यमुक्त होने पर राष्ट्रपति श्री जी. राजेश को 23.12.2015 (पूर्वाह्न) से जनजातीय कार्य मंत्रालय में प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

रीमा शर्मा, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)
राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 फरवरी 2016

सं. पीएफ/2633/एनआईसी/2016—प्रशा—I—श्री प्रवीन कुमार जैन, वैज्ञानिक 'एफ' (कर्मचारी कोड : 2633), राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से 29 फरवरी, 2016 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से ड्यूटी से कार्यमुक्त किया जाता है।

एल.एस. विश्वनाथन, संयुक्त निदेशक

डाक विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 फरवरी 2016

सं. 26-4/2016—एसपीजी—डॉ. पी. एस. एल. राव, मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, डाक चिकित्सालय, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश सर्कल, हैदराबाद अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 29.02.2016 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

मनोज शर्मा, सहायक महानिदेशक (एसजीपी)

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी 2016

सं. ईआरबी-I/2016/10/18—श्री नवीन टंडन, सदस्य बिजली, रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय में भारत सरकार के पदेन सचिव अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.12.2015 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आर. के. वर्मा, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-I/2016/10/18—रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.01.2016 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं:—

- | | | |
|------|------------------------|----------------------------|
| i) | श्री कुन्दन सिन्हा, | अपर सदस्य (यातायात). |
| ii) | डॉ. जसवंत सिंह, | संयुक्त सांख्यिकी सलाहकार. |
| iii) | श्री एस. एस. छिल्लर, | निजी सचिव. |
| iv) | श्री खेम चन्द, | अनुभाग अधिकारी. |
| v) | श्री सी. पी. क्वात्रा, | अनुभाग अधिकारी. |
| vi) | श्री सी. जे. दीवान, | अनुभाग अधिकारी. |
| vii) | श्री सर्वानन्द, | अनुभाग अधिकारी. |

आर. के. वर्मा, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-I/2016/10/18—श्री विनोद कुमार एम. बी., अनुभाग अधिकारी, रेलवे बोर्ड 31.01.2016 के अपराह्न से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आर. के. वर्मा, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-I/2016/10/18—श्री नरेन्द्र पाल सिंह, निजी सचिव, रेलवे बोर्ड 01.02.2016 के पूर्वाह्न से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आर. के. वर्मा, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-I/2016/10/18—रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.12.2015 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं:-

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| i) मुहम्मद अख्तर, | अपर सदस्य (कार्मिक). |
| ii) श्री के. एस. कृष्णाकुमार, | अपर सदस्य (दूरसंचार). |
| iii) सुश्री शशी सूद, | व. प्रमुख निजी सचिव. |
| iv) सुश्री रेखा प्रकाश, | प्रमुख निजी सचिव. |

आर. के. वर्मा, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 2 मार्च 2016

सं. ईआरबी-I/2016/10/18—रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 29.02.2016 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं:-

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| i) श्री एस. सुब्रमण्यन, | अपर सदस्य (बजट). |
| ii) श्रीमती भूपिन्दर कौर आहुजा, | अनुभाग अधिकारी. |
| iii) श्रीमती सुमन चट्टा, | निजी सचिव. |

आर. के. वर्मा, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 2016

सं. ई(जी.पी.)2014/3/8(यातायात)—राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेल के यातायात विभाग के निम्नलिखित ग्रुप 'बी' अधिकारियों, जो कि नीचे दर्शाए गए रेलों से हैं, की भारतीय रेल यातायात सेवा (आई.आर.टी.एस.) के ग्रुप 'ए' / कनिष्ठ वेतनमान में, नीचे दिए गए दिनांक से, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2011-12 के लिए पैनल

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	रेलवे	
1.	निरंजन पाधी	पूर्व तट रे.	09.07.2012 से पदोन्नत
2.	वी. वी. रमणमूर्ती	द.म.रे	—वही—
3.	जयदेव मंडल (अ.जा.)	द.पू.रे.	09.07.2012 से अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत

यह वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 के पैनल जो कि क्रमशः अधिसूचना संख्या ई(जी.पी.)2009/3/8(यातायात) दिनांक 27.09.2013 तथा 18.12.2013 एवं ई(जी.पी.)2012/3/8 (यातायात) दिनांक 21.04.2015 के द्वारा अधिसूचित किए गए थे, के आंशिक संशोधन में हैं।

2012-13 के लिए पैनल

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	रेलवे	
1.	वी. ए. अय्यर	प.रे.	04.04.2014 से पदोन्नत
2.	वी. के. जौहरी	प.रे.	—वही—
3.	एस. आर. विश्वास (अ.जा.)	द.पू.म.रे.	04.04.2014 से अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत

2013-14 के लिए पैनल

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	रेलवे	
1.	जे.ए. आजमी	पूर्वोत्तर रे.	04.04.2014 से पदोन्नत
2.	डी. एस. मीणा (अ.ज.जा.)	उ.रे.	—वही—
3.	निर्मल कु. सिन्हा	पूर्वोत्तर रे.	—वही—
4.	जे. अरुन्धति (अ.ज.जा.)	द.रे.	04.04.2014 से अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत
5.	राजीव सेठ	पूर्वोत्तर रे.	04.04.2014 से पदोन्नत
6.	गिरधरगोपालन ए. (अ.ज.जा.)	द.रे.	04.04.2014 से अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत
7.	टी. मिश्रा	पूर्वतट रे.	04.04.2014 से पदोन्नत

2. उपरोक्त 2012-13 तथा 2013-14 के पैनल जो कि अधिसूचना संख्या ई(जी.पी.)2012/3/8 (यातायात) दिनांक 21.04.2015 के द्वारा अधिसूचित किए गए थे, के आंशिक संशोधन में हैं।

3. उपर्युक्त अधिकारियों की 2012-13 तथा 2013-14 के पैनल में नियुक्ति उच्च न्यायालय, उड़ीसा (कटक) में दायर की गई WP(C) No. 4365/2014 तथा कैट/इलाहाबाद में दायर की गई याचिका संख्या 220/2014 के परिणाम के अध्वधीन की जाती है।

2014-15 के लिए पैनल

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	रेलवे	
1.	के. सी. राऊत	द.पू.म.रे.	16.12.2015 से पदोन्नत
2.	अरविंद दास (अ.जा.)	पूर्वो.सी.रे.	—वही—
3.	भगवत पांडा	पूर्वतट रे.	—वही—
4.	एम.एम. पट्टनायक	पूर्वतट रे.	—वही—
5.	लिंगराज नंदा	पूर्वतट रे.	—वही—
6.	ए.के. तलदी	पूर्वतट रे.	—वही—
7.	के.के. जॉर्ज (अ.ज.जा.)	द.रे.	—वही—
8.	असीम जाफर	पू.रे.	—वही—
9.	सुब्रतो मुखर्जी	पू.रे.	—वही—
10.	शंभू आचार्य	पू.रे.	—वही—
11.	निखिल कुमार चक्रवर्ती	पू.रे.	—वही—
12.	कार्तिक सिंह (अ.ज.जा.)	पू.रे.	—वही—
13.	पी. एस. पून्नुस (अ.जा.)	म.रे.	—वही—
14.	आर.जी. जेठानी	प.रे.	—वही—
15.	के.वी. देसाई	प.रे.	—वही—
16.	जी.एस. जोशी	म.रे.	—वही—
17.	एन. एल. कोरडा	म.रे.	—वही—

18.	वी. ए. बिमल रॉय (अ.जा.)	म.रे.	—वही—
19.	आर.के. गोस्वामी	पूर्वो.सी.रे.	—वही—
20.	श्रीमति इंदिरा बैनर्जी	द.पू.रे.	—वही—
21.	पी. के. मोहंती	पूर्वतट रे.	—वही—
22.	के. एन. साहू	पूर्वतट रे.	—वही—
23.	आर. एन. नायक	पूर्वतट रे.	—वही—
24.	सैयद मस्तान बाबू	द.म.रे.	—वही—
25.	मो. नियाज अनवर	पू.म.रे.	—वही—
26.	फैयाज मोहम्मद	पू.म.रे.	—वही—
27.	संजय प्र. चोधरी (अ.जा.)	पू.म.रे.	—वही—
28.	ए. के. पांडे	पू.म.रे.	—वही—
29.	सच्चिदानंद सिंह	पू.म.रे.	—वही—
30.	आर. के. ओरांव (अ.ज.जा.)	पू.म.रे.	—वही—
31.	गोविन्द चौधरी (अ.जा.)	पू.म.रे.	—वही—
32.	प्रमोद कुमार	पू.म.रे.	—वही—
33.	अरविंद कुमार रॉय	पू.म.रे.	—वही—
34.	एस. भट्टाचार्य	पू.म.रे.	—वही—
35.	नीलेश कुमार	पू.म.रे.	—वही—
36.	बिरेश्वर दास गुप्ता	पू.रे.	—वही—
37.	सुजय कु. मुर्मू (अ.ज.जा.)	पू.रे.	—वही—
38.	प्रदीप कु. मुखर्जी	पू.रे.	—वही—
39.	सौम्या किशोर बैनर्जी	द.पू.रे.	—वही—
40.	सुभाशीष कोले	द.पू.रे.	—वही—
41.	के. एस. आनंद	द.पू.रे.	—वही—
42.	संजीव घोष	पूर्वो.सी.रे.	—वही—
43.	अरविंद होरो (अ.ज.जा.)	पूर्वो.सी.रे.	16.12.2015 से अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत
44.	दिनेश भगत (अ.जा.)	पू.म.रे.	16.12.2015 से अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत
45.	जी. प्रकाश चन्द्रपाल (अ.जा.)	प.रे.	16.12.2015 से अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत
46.	वी. डी. मीणा (अ.ज.जा.)	उ.रे.	16.12.2015 से अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत
47.	पी. सेत्वाराज (अ.जा.)	द.रे.	16.12.2015 से अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत
48.	नवीन राज (अ.जा.)	द.पू.म.रे.	16.12.2015 से अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत
49.	एन. महेश (अ.जा.)	द.रे.	16.12.2015 से अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत
50.	एस.एस. सोनावाने (अ.जा.)	म.रे.	16.12.2015 से अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत
51.	डोडाकरियप्पा पी.एच. (अ.ज.जा.)	द.प.रे.	16.12.2015 से अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत
52.	अजय बनिक	पूर्वो. सी. रे.	16.12.2015 से पदोन्नत
53.	वी.एन. दिवेदी	पूर्वो. सी. रे.	—वही—
54.	सुनील कुमार	पू.म.रे.	—वही—

55.	जे.पी. त्रिवेदी	पू.म.रे.	—वही—
56.	बी. वेंकटरामा प्रसाद	द.म.रे.	—वही—
57.	एस. विष्णुवर्धन (अ.जा.)	द.प.रे.	16.12.2015 से अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत

रश्मि चौधरी कार्यकारी निदेशक, स्था.(जी.सी.)
(रेलवे बोर्ड)

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक मार्च 2016

सं. ए-31014/01/2016-आईएसएच-II—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद के कार्यालय में प्रत्येक अधिकारी के समक्ष उल्लिखित पदों पर नियुक्त करते हैं। यह नियुक्ति मूल क्षमता में प्रत्येक अधिकारी के नाम के समक्ष इंगित तारीख से प्रभावी होगी:—

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (श्री/सर्वश्री)	पद का नाम	नियुक्ति की मूल तारीख
1.	राजकिशोर रंजन ठाकुर	उप-निदेशक खान सुरक्षा (खनन)	05.08.2014
2.	प्रफुल रंजन ठाकुर	—वही—	08.08.2014
3.	कर्म देव राम	—वही—	18.11.2014
4.	नयन सिन्हा	—वही—	10.12.2014
5.	अनिल कुमार दास	—वही—	20.03.2015
6.	साकेत भारती	—वही—	16.12.2014
7.	कुमार राजीव कृष्णा कुमार	—वही—	27.01.2015
8.	वेणुगोपाल स्वामी कदम	—वही—	27.12.2014
9.	निरंजन कुमार	—वही—	18.11.2014
10.	दुर्गा शंकर सलवी	—वही—	23.12.2014
11.	रमेश वालिकर	—वही—	23.12.2014
12.	टिकेश्वर महतो	—वही—	30.12.2014
13.	दयानंद चेरकु	—वही—	12.03.2015
14.	रघु मेरुगु	उप-निदेशक खान सुरक्षा (विद्युत)	26.03.2015
15.	पंजक कुमार जैन	उप-निदेशक खान सुरक्षा (यांत्रिक)	28.01.2015
16.	नरेश गोविंद फुले	—वही—	24.03.2015

राजेश कुमार, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 24th February 2016

No. RS. 46/2016/7-Perl.—Shri Sunil Kumar Sharma working as Assistant Director (Administration) on deputation basis in the Rajya Sabha Television stands relieved of his duties w.e.f. the afternoon of 24.02.2016 and his services are placed back at the disposal of the Lok Sabha Secretariat.

S. RANGARAJAN, Joint Director

NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi, the 14th March 2016

No. A-19014/02/2016-Ad—The President is pleased to appoint Dr. Venkateshwaran. L as Assistant Director in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- (PB-3) in the National Security Council Secretariat (NSCS) on contract basis with effect from the forenoon of 11th March 2016, for a period of three years (including one year probation) extendable upto 5 years or until further orders, whichever is earlier.

R. K. JAIN, Under Secretary

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560 231, the 18th February 2016

No. 6/1(1)/2016-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned persons to the posts mentioned against each in the Space Application Centre, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.07.2014 and until further orders:—

Sl. No.	Name Shri/Smt./Kum.	Post from which promoted	Post to which promoted
1.	M.M. Karimi	Junior Engineer	Assistant Engineer
2.	N.P. Ajmeri	Senior Technician-B	Junior Engineer
3.	M.S. Ghoghra	Senior Technician-A	Senior Technician-B
4.	I.S. Parmar	Senior Technician-A	Senior Technician-B
5.	Anil Kumar Gupta	Technical Assistant	Sr. Technical Assistant-A
6.	Saiyed M. Rafik	Technician-G	Senior Technician-A
7.	H.A. Shrimali	Technician-D	Technician-F

B. ANIL KUMAR, Deputy Secretary

No.6/1(1)/2016-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned below in the Space Application Centre, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each and until further orders :—

Sl. No.	Name Shri/Smt./Kum.	Post to which Promoted	Date of Promotion
1.	Virender Kumar	Scientist/Engineer-G	01.07.2014
2.	D B Dave	Scientist/Engineer-G	01.07.2014
3.	Dr. Neerja Sharma	Scientist/Engineer-SE	08.07.2014
4.	Raj S Shah	Scientist/Engineer-SC	01.07.2014

B. ANIL KUMAR, Deputy Secretary

No. 6/1(2)/2016-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of the following Scientists/Engineers in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name Shri/Smt./Kum.	Designation	Date of Resignation
1.	Deven J Chheda	Scientist/Engineer-SD	25.07.2014
2.	Pritesh Kumar Sinha	Scientist/Engineer-SC	30.05.2014

B. ANIL KUMAR, Deputy Secretary

No. 6/1(2)/2016-I—Consequent on acceptance of voluntary retirement, Shri K Muthuraman, Scientist/Engineer-SE in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space has relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of 05.08.2014.

B. ANIL KUMAR, Deputy Secretary

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 16th February 2016

No. A.12025(i)/1/2007-Admn.I(L.D.)—The President is pleased to appoint Smt. Sunita Anand, Assistant Legislative Counsel (Grade IV of Indian Legal Service) in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to the post of Deputy Legislative Counsel (Grade III of Indian Legal Service) in the Pay Band of Rs.15600-39100/- plus Grade Pay of Rs.7600/- in the said Department of Ministry of Law and Justice on *ad hoc* basis for a period of three months with effect from the forenoon of 16th February, 2016 or until further orders, whichever is earlier.

2. This *ad hoc* appointment will not bestow on her any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Deputy Legislative Counsel (Grade III of ILS) nor the *ad hoc* services rendered by her will count for the purpose of seniority in the grade or for her promotion to the next higher grade.

B. M. SHARMA, Deputy Secretary

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 15th March 2016

No. A.12025/2/2012-Admn.I(LA)—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Subhro Jyoti Mukherjee to the grade of Assistant Legal Adviser (Grade-IV of the Legal Advisers' Service Cadre of the Indian Legal Service) in the Pay Band-3 of Rs.15,600-39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice, Branch Secretariat, Kolkata with effect from the forenoon of 10.02.2016 until further orders.

A. K. JOSHI, Deputy Secretary

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 4th March 2016

No. I-18011/02/2016-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following members of the Indian Police Service of 2012 Batch, borne on the cadre of Tamil Nadu with effect from dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the IPS Probationers S/Shri	Date of Confirmation
(1)	(2)	(3)
1.	Arunsakthi Kumar P., IPS (TN : 2012	03.09.2014
2.	Deshmukh Shekar Sanjay, IPS (TN : 2012)	24.12.2014

(1)	(2)	(3)
3.	Georgy George, IPS (TN : 2012)	24.12.2014
4.	Omprakash Meena, IPS (TN : 2012)	24.01.2015
5.	Ms. Rohni Priyadarshini P., IPS (TN : 2012)	03.09.2014
6.	Vikrant Patil, IPS (TN : 2012)	24.12.2014
7.	Ms. Deepa Ganiger S., IPS (TN : 2012)	24.12.2014

DHEERAJ KUMAR SINGH, Section Officer (IPS-IV)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi, the 14th March 2016

No. 39019/04/2013-Estt (B)—Consequent upon attaining the age of 65 years, Dr. (Mrs.) P. Kilemsungla, has demitted the office of Member, Union Public Service Commission with effect from the afternoon of 29th February, 2016.

DEVESH CHATURVEDI, Joint Secretary

New Delhi, the 15th March 2016

No. 14013/01/2015-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, Sh. Balasaheb Kolse, member of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Maharashtra of 2003 batch in the Indian /Administrative Service, with effect from 19.01.2016.

KAVITHA V. PADMANABHAN, Deputy Secretary

New Delhi, the 29th December 2015

No. 14012/16/2011-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Ravi Prakash Gupta, member of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Haryana of 2007 batch, in the Indian the Administrative Service, with effect from 26.07.2015.

RAJIV JAIN, Under Secretary

New Delhi, the 23rd February 2016

No. 14012/10/2012-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Smt. Saidingpuui Chhakchhuak, member of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Gujarat of 2008 batch, in the Indian Administrative Service, with effect from 01.09.2010.

RAJESH KUMAR YADAV, Under Secretary

The 1st March 2016

No. 23012/01/2015-AIS-III—Ms. Aanchal Sood, IAS (MH : 2014) has been permitted to change her name from Aanchal Sood to Aanchal Goyal. She will accordingly be recognized as Aanchal Goyal for all official purposes.

RAJESH KUMAR YADAV, Under Secretary

New Delhi, the 3rd March 2016

No. A-32015/8/2006-Cadre(Ad.IV)—Consequent upon inclusion in the Select List of Section Officers' Grade of Central Secretariat Service (CSS) for the year 2015 against Seniority Quota, the President is pleased to appoint the following Assistant Section Officers as Section Officers (Group 'B' Gazetted) of Central Secretariat Service (CSS) in the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions in the Pay Band 2 with Grade Pay of Rs. 4800/- with effect from 16.02.2016 :—

Sl. No.	Name of the Officer (Shri/Smt.)	Select List Year
1.	Shashi Chawla	2015
2.	Uma Sharma	2015
3.	Saroj Arora	2015
4.	R. Balasubramanian	2015

KULBHUSHAN MALHOTRA, Under Secretary

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 18th September 2013

No. 29/2013 (A-32019/01/2013/E. I)—Consequent upon his nomination by the Department of Personnel & Training vide O.M. No. 6/1/2012-CS.I(S) dated 30th August, 2013 for inclusion in the Select List of Section Officer's Grade for the year 2011 against Examination Quota on the basis of Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2009, 2010 and 2011, the President is pleased to appoint Shri Balam Singh Manral, regular Assistant to the grade of Section Officer in the cadre of Department of Commerce with effect from 6th September, 2013 (Forenoon).

2. This appointment is subject to outcome of the following Court cases :—

- (i) OA No. 4135/2012, MA No. 3477/2012 filed by Shri Rajeev R & Ors Vs UoI in CAT, New Delhi.
- (ii) OA No. 4082/2012 & MA No. 3448/2012 filed by Shri M. R Meena & Ors Vs UoI in CAT, New Delhi.
- (iii) OA No. 4141/2012 filed by Shri Shanti Lal Bourasi & Ors Vs UoI in CAT, New Delhi.

G. B. UPADHYAY, Deputy Secretary

No. 31/2013 (A-32019/01/2013/E. I)—Consequent upon his nomination by the Department of Personnel & Training vide O.M. No. 6/1/2012-CS.I(S) dated 13th August, 2013 for inclusion in the Select List of Section Officer's Grade for the year 2009 against Examination Quota on the basis of Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2009, 2010 and 2011, the President is pleased to appoint Shri K. Khatminthang, regular Assistant to the grade of Section Officer in the cadre of Department of Commerce with effect from 2nd September, 2013 (Forenoon).

2. This appointment is subject to outcome of the following Court cases :—

- (i) OA No. 4135/2012, MA No. 3477/2012 filed by Shri Rajeev R & Ors Vs UoI in CAT, New Delhi.
- (ii) OA No. 4082/2012 & MA No. 3448/2012 filed by Shri M. R Meena & Ors Vs UoI in CAT, New Delhi.
- (iii) OA No. 4141/2012 filed by Shri Shanti Lal Bourasi & Ors Vs UoI in CAT, New Delhi.

G. B. UPADHYAY, Deputy Secretary

The 26th September 2013

No. 28/2013 (A-32019/01/2013/E.I)—Consequent upon their nomination by the Department of Personnel & Training vide O.M. No. 6/1/2012-CS.I(S) dated 30th August, 2013 for inclusion in the Select List of Section Officer's Grade for the year 2011 against Examination quota on the basis of Combined Limited Departmental Competitive Examination 2009, 2010 and 2011, the President is pleased to appoint the following regular Assistants/Stenographer 'C' (PA) to the grade of Section Officer in the cadre of Department of Commerce with effect from 02.09.2013 (Forenoon) :—

Sl. No.	Name
1.	Sh. Ramesh Chandra
2.	Sh. Shyamal Kumar Bit
3.	Sh. Antony Xavier

4.	Sh. Utpal Kumar Bhattacharya
5.	Sh. Om Prakash
6.	Sh. Prem Nath
7.	Sh. Azad Lal Pasi

2. These appointments are subject to outcome of the following Court cases :—

- (i) OA No. 4135/2012, MA No. 3477/2012 filed by Shri Rajeev R & Ors Vs UoI in CAT, New Delhi.
- (ii) OA No. 4082/2012 & MA No. 3448/2012 filed by Shri M. R. Meena & Ors Vs UoI in CAT, New Delhi.
- (iii) OA No. 4141/2012 filed by Shri Shanti Lal Bourasi & Ors Vs UoI in CAT, New Delhi.

G. B. UPADHYAY, Deputy Secretary

No. 30/2013 (A-32019/01/2013/E. I)—Consequent upon their nomination by the Department of Personnel & Training vide O.M. No. 6/1/2012-CS.I(S) dated 19th August, 2013 for inclusion in the Select List of Section Officer's Grade for the year 2010 against Examination Quota on the basis of Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2009, 2010 and 2011, the President is pleased to appoint the following regular Assistant/Private Secretary to the grade of Section Officer in the cadre of Department of Commerce with effect from dates indicated against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Appointment
1.	Shri Mukesh Kumar	02.09.2013 (AN)
2.	Ms. Rita Kumari	21.08.2013 (FN)

2. These appointments are subject to outcome of the following Court cases :—

- (i) OA No. 4135/2012, MA No. 3477/2012 filed by Shri Rajeev R & Ors Vs UoI in CAT, New Delhi.
- (ii) OA No. 4082/2012 & MA No. 3448/2012 filed by Shri M. R. Meena & Ors Vs UoI in CAT, New Delhi.
- (iii) OA No. 4141/2012 filed by Shri Shanti Lal Bourasi & Ors Vs UoI in CAT, New Delhi.

G. B. UPADHYAY, Deputy Secretary

No. 33/2013 (A-32019/01/2013/E. I)—Consequent upon their nomination by the Department of Personnel & Training vide O.M. No. 6/1/2012-CS.I(S) dated 19th August, 2013 for inclusion in the Select List of Section Officer's Grade for the year 2010 against Examination Quota on the basis of Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2009, 2010 and 2011, the President is pleased to appoint the Shri Shyamal Sil, regular Assistant to the grade of Section Officer in the cadre of Department of Commerce with effect from Forenoon of 13.09.2013.

2. This appointment is subject to outcome of the following Court cases :—

- (i) OA No. 4135/2012, MA No. 3477/2012 filed by Shri Rajeev R & Ors Vs UoI in CAT, New Delhi.
- (ii) OA No. 4082/2012 & MA No. 3448/2012 filed by Shri M. R. Meena & Ors Vs UoI in CAT, New Delhi.
- (iii) OA No. 4141/2012 filed by Shri Shanti Lal Bourasi & Ors Vs UoI in CAT, New Delhi.

G. B. UPADHYAY, Deputy Secretary

No. 34/2013 (A-32019/01/2013/E. I)—Consequent upon their nomination by the Department of Personnel & Training vide O.M. No. 6/1/2012-CS.I(S) dated 30th August, 2013 for inclusion in the Select List of Section Officer's Grade for the year 2011 against Examination Quota on the basis of Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2009, 2010 and 2011, the President is pleased to appoint the following regular Assistants/Stenographer 'C' (PA) to the grade of Section Officer in the cadre of Department of Commerce with effect from the dates mentioned indicated against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Appointment
1.	Ms. Usha Sreenivasan	10.09.2013 (FN)
2.	Ms. Nivedita Roy Choudhury	12.09.2013 (FN)
3.	Sh. Vikas Mohan	13.09.2013 (AN)
4.	Ms. Marykutty Abraham	16.09.2013 (FN)

2. These appointments are subject to outcome of the following Court cases :—

- (i) OA No. 4135/2012, MA No. 3477/2012 filed by Shri Rajeev R & Ors Vs UoI in CAT, New Delhi.
- (ii) OA No. 4082/2012 & MA No. 3448/2012 filed by Shri M. R. Meena & Ors Vs UoI in CAT, New Delhi.
- (iii) OA No. 4141/2012 filed by Shri Shanti Lal Bourasi & Ors Vs UoI in CAT, New Delhi.

G. B. UPADHYAY, Deputy Secretary

The 1st October 2013

No. 37/2013 (A-32019/01/2013/E. I)—Consequent upon his nomination by the Department of Personnel & Training vide O.M. No. 6/1/2012-CS.I(S) dated 13th August, 2013 for inclusion in the Select List of Section Officer's Grade for the year 2009 against Examination Quota on the basis of Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2009, 2010 and 2011, the President is pleased to appoint Shri Narendra Kumar Sahoo, regular Assistant, to the grade of Section Officer in the cadre of Department of Commerce with effect from 18th September, 2013 (Forenoon).

2. This appointment is subject to outcome of the following Court cases :—

- (i) OA No. 4135/2012, MA No. 3477/2012 filed by Shri Rajeev R & Ors Vs UoI in CAT, New Delhi.
- (ii) OA No. 4082/2012 & MA No. 3448/2012 filed by Shri M. R. Meena & Ors Vs UoI in CAT, New Delhi.
- (iii) OA No. 4141/2012 filed by Shri Shanti Lal Bourasi & Ors Vs UoI in CAT, New Delhi.

G. B. UPADHYAY, Deputy Secretary

The 1st January 2016

No. 01/2016 (A-32012/1/2015- E.I)— In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No.5/3/2015-CS.I (U) dated the 23rd December, 2015, the President is pleased to appoint Shri Narendra Kumar (CSL No. 8866) a regular Section Officer of Central Secretariat Service (CSS) to Grade I (Under Secretary) of the CSS on ad-hoc basis for a period upto 30.06.2016 or till the post is filled up on regular basis, or until further orders whichever is earlier, in the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry with effect from 28th December, 2015 (A/N).

2. The terms and conditions of above appointment to the Grade I (Under Secretary) of the CSS on ad-hoc basis will be the same as contained in Department of Personnel and Training's O.M. No.5/3/2015-CS.I(U) dated 23rd December, 2015.

G. B. UPADHYAY, Deputy Secretary

The 4th January 2016

No. 2 /2016 (A-32012/6/2015-E.I)—In pursuance of the Department of Personnel & Training Office Memorandum No.5/6/2011-CS.I(U) dated the 18th June, 2015, the following officers of Central Secretariat Service (CSS) are included in the Select List of Grade I (Under Secretary) of CSS for the year 2003 and appointed as Under Secretary on regular basis:

S.No.	Name of Officer	CSL No.
1.	Smt. Varsha Sinha	4378-A
2.	Shri Soumya Chattopadhyay	4645-A
3.	Shri S.P. Roy	4726-A

2. The terms and conditions of above inclusion in the Select List 2003 and appointment to the Grade I (Under Secretary) of CSS will be the same as contained in Department of Personnel and Training's O.M. No.5/16/2007-CS.I dated 25.08.2009 and No. 5/6/2011-CS.I(U) dated 18.06.2015.

G. B. UPADHYAY, Deputy Secretary

New Delhi, the 23rd August 2013

No. 25/2013 (A-32019/01/2013/E. I)—Consequent upon his nomination by the Department of Personnel & Training vide O.M. No. 6/1/2012-CS.I(S) dated 13th August, 2013 for inclusion in the Select List of Section Officer's Grade for the year 2009 against Examination Quota on the basis of Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2009, 2010 and 2011, the President is pleased to appoint the following regular Assistants to the grade of Section Officer in the cadre of Department of Commerce with effect from 13th August, 2013 (Forenoon).

Sl. No.	Name	Date of Birth
1.	Sh. Sonu Kumar	21.12.1981
2.	Sh. Nil Madhab Biswas	10.05.1960
3.	Sh. Sanjeev Kumar Kala	11.04.1963
4.	Sh. Deepak Sharma	21.07.1975
5.	Sh. Sanjay Kerketta	01.01.1970

2. These appointments are subject to outcome of the following Court cases :—

- (i) OA No. 4135/2012, MA No. 3477/2012 filed by Shri Rajeev R & Ors Vs UoI in CAT, New Delhi.
- (ii) OA No. 4082/2012 & MA No. 3448/2012 filed by Shri M. R. Meena & Ors Vs UoI in CAT, New Delhi.
- (iii) OA No. 4141/2012 filed by Shri Shanti Lal Bourasi & Ors Vs UoI in CAT, New Delhi.

RAJEEV KUMAR, Under Secretary

The 23rd January 2014

No. 11/2014 (A-32019/01/2013/E. I)—Consequent upon his nomination by the Department of Personnel & Training vide O.M. No. 6/1/2012-CS.I(S) dated 19th August, 2013 for inclusion in the Select List of Section Officer's Grade for the year 2010 against Examination Quota on the basis of Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2009, 2010 and 2011, the President is pleased to appoint Shri Sachidanand Bhardwaj, regular Assistant, to the grade of Section Officer in the cadre of Department of Commerce with effect from 1st January, 2014 (Forenoon).

2. This appointment is subject to outcome of the following Court cases :—

- (i) OA No. 4135/2012, MA No. 3477/2012 filed by Shri Rajeev R & Ors Vs UoI in CAT, New Delhi.
- (ii) OA No. 4082/2012 & MA No. 3448/2012 filed by Shri M. R. Meena & Ors Vs UoI in CAT, New Delhi.
- (iii) OA No. 4141/2012 filed by Shri Shanti Lal Bourasi & Ors Vs UoI in CAT, New Delhi.

RAJEEV KUMAR, Under Secretary

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi-110011, the 11th March 2016

No. A. 12025/62/2013-CHS.III— On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Rekha Bharti to the post of Assistant Professor in the speciality of Obst. & Gyane, in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 17.02.2014 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secretary

No. A. 12025/62/2014-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Pooja Arora Mrig to the post of Assistant Professor in the specialty of Skin & V.D. in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 03.07.2014 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secretary

No. A. 12025/74/2014-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Bhupinder Singh to the post of Assistant Professor in the specialty of Pharmacology in the Teaching

Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the afternoon of 01.08.2014 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secretary

The 15th March 2016

No.A.12025/145/2014-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Shubhangi Ramesh Baviskar to the post of Public Health specialist Grade-II(Junior Scale) in the Public Health Sub-Cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 16.03.2015 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secretary

MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS WELFARE)

New Delhi, the 30th December 2015

No. 32014/3/2015-E.I—Consequent upon inclusion of their names in the Select List of Private Secretaries of CSSS for the year 2014 against Seniority Quota in pursuance of DoPT's OM No. 4/15/2015-CS.II (A) dated 11.12.2015, the President is pleased to appoint the following regular Steno Grade 'C' of CSSS to the post of PS in PB-2 (9300-34800) Grade Pay 4800/- on regular basis in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare with effect from the dates mentioned against the names of each:—

Sl.No.	Name of the officer	Date of appointment
1	Shri Davinder Puri	11.12.2015 (F/N)
2	Shri Suresh Kumar	11.12.2015 (F/N)
3	Smt Sushma	18.12.2015 (A/N)
4	Shri Amit Sareen	17.12.2015 (F/N)
5	Smt Tara Kapoor	28.12.2015 (F/N)
6	Shri K.J.V.N. Mohana Rao	28.12.2015 (A/N)

SUDHIR KUMAR, Under Secretary

New Delhi, the 6th January 2016

No. 32013/2/2015-E.I—Consequent upon inclusion of her name in the Select List of Senior Principal Private Secretary of CSSS for the year 2015(Part) in pursuance of Department of Personal & Training's O.M. No. 2/2/2015-CS.II(A) dated 30.12.2015, the President is pleased to appoint Ms Achla, regular Principal Private Secretary of CSSS borne on the cadre of Department of Commerce to the post of Sr.PPS on regular basis in the Department of Agriculture & Cooperation w.e.f. the forenoon of 1st January 2016.

BRAJESH GODRA, Under Secretary

The 10th February 2016

No. 32014/3/2015-E.I—Consequent upon their qualifying the Combined SO/Steno (Gr.B/Gr.I) Limited Departmental Competitive Examinations 2014 and in pursuance of DOPT's OM No. 4/10/2014-CS.II (A) dated 19.01.2016, the President is pleased to appoint the following regular Steno Grade 'C' of CSSS to the post of Private Secretary (PB-2 9300-34800, Grade Pay 4800/-) in SL 2014 on regular basis in the Department of Agriculture & Cooperation w.e.f. the dates mentioned against each:—

Ms Rama Vishal Malhotra	19.01.2016(F/N)
Shri Sanjeev Khanna	21.01.2016(A/N)
Shri Sanker N	25.01.2016 (F/N)

BRAJESH GODRA, Under Secretary

The 26th February 2016

No. 32014/3/2015-E.I.—Consequent upon inclusion of her name in the Select List of Private Secretaries of CSSS for the year 2014 against Seniority Quota in pursuance of DoPT's OM No. 4/15/2015-CS.II (A) dated 11.12.2015, the President is pleased to appoint Smt Surjeet Kaur a regular Steno Grade 'C' of CSSS to the post of PS in PB-2 (9300-34800) Grade Pay 4800/- on regular basis in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare with effect from the forenoon of 17th February 2016.

BRAJESH GODRA, Under Secretary

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS

New Delhi, the 24th February 2016

No.2/2016.A.32014/1/2014-Admn.: Consequent upon inclusion of her name in Select List of Section Officers' Grade of CSS for the year 2015 against Seniority Quota (SQ) vide Department of Personnel and Training Order No.6/10/2015-CS.I(S) dated 31.08.2015 and successful completion of Level 'B' training by her as conveyed vide ISTM's letter No.A-33021/08/2015-ISTM dated 17.02.2016, the President is pleased to appoint Smt. Laxmi Rawat as Section Officer (CSL AG No.2003/1495), on regular basis w.e.f. 17.02.2016, in the Pay Band-2 (Rs.9300-34800) + Grade Pay of Rs.4800/- in the Ministry of Youth Affairs & Sports Cadre of Central Secretariat Service (CSS), until further orders.

I. B. LENKA, Under Secretary

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP

New Delhi, the 26th February 2016

No.A-19011/1/2016-Estt. : In pursuance of Appointment Committee of the Cabinet, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training Order No. 33/01/2016-EO(SM-I) dated 22nd January, 2016, Shri Asheesh Sharma, IAS(MH:1997) has assumed charge of Joint Secretary in the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India w.e.f. 25th February, 2016(A/N).

PRABHA SHARMA, Under Secretary

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 21st December 2015

No.48011/5/2015-Estt.—In pursuance of Ministry of Social Justice & Empowerment's Notification No.A-42018/53/2009-Estt.I dated 27.10.2015, the Eleven(11) joint cadre posts viz. 4 posts of Director (Grade Pay: Rs. 7600), 2 posts of Deputy Director (Grade pay: Rs. 6600) and 5 posts of Assistant Director (Grade pay: Rs. 5400) assigned with National Commission for Scheduled Tribes (NCST) which were earlier under the administrative control of Ministry of Social Justice and Empowerment (M/o SJ&E) have been taken under the administrative control of Ministry of Tribal Affairs (MoTA) with effect from 27.10.2015.

M. DILIP KUMAR, Deputy Secretary

New Delhi, the 21st October 2015

No. 19011/8/2012-Estt.—In pursuance of Department of Personnel and Training's O.M. No. 4/8/15-CS.I (D) dated 14.10.2015, the name of Shri Gopal Sadhwani is included in the Selection Grade (Deputy Secretary) Select List of CSS for the year 2011 subject to final outcome of Writ Petitions No. 6597/2012 and 3003/2013 pending before the Hon'ble High Court of Delhi and also subject to any Orders of any other competent Court in any connected matter.

REEMA SHARMA, Under Secretary

The 31st December 2015

No.19011/14/2015-Estt.—Consequent upon his promotion to the post of PPS vide DoPT's O.M. No.3/3/2015-CS.II(A) dated 21.12.2015 and subsequent relieving by Central Electricity Authority vide their Office Order No.3/2/14-Adm-III(CEA) dated 22.12.2015, the President is pleased to appoint Shri G. Rajesh to the post of PPS in the Ministry of Tribal Affairs w.e.f. 23.12.2015(FN).

REEMA SHARMA, Under Secretary

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY)

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 29th February 2016

No. PF/2633/NIC/2016/Adm-I—Shri Praveen Kumar Jain, Scientist-F (Emp. Code : 2633) of National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government Service with effect from the afternoon of 29th February, 2016 and he stands relieved of his duties from the same day.

L. S. VISWANATHAN, Joint Director (Admin.)

DEPARTMENT OF POSTS

New Delhi-110001, the 16th February 2016

No. 26-4/2016-SPG—Dr. P.S.L. Rao, CMO I/c, Postal Dispensary, Visakhapatnam, Andhra Pradesh Circle, Hyderabad, is retiring on superannuation from Government Service w.e.f. 29.02.2016 (A/N).

MANOJ SHARMA, Assistant Director General (SGP)

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 18th February 2016

No. ERB-I/2016/10/18—Shri Navin Tandon, Member Electrical, Railway Board and Ex-Officio Secretary to the Government of India in the Ministry of Railways retired from service with effect from the afternoon of 31.12.2015, on attaining the age of superannuation.

R. K. VERMA, Secretary
(Railway Board)

No. ERB-I/2016/10/18—The following officers of Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31.01.2016 :—

- | | | |
|-------|----------------------|-------------------------|
| (i) | Shri Kundan Sinha | Addl. Member (Traffic). |
| (ii) | Dr. Jaswant Singh | Jt. Economic Adviser. |
| (iii) | Shri S. S. Chhillar, | Private Secretary. |
| (iv) | Shri Khem Chand | Section Officer. |
| (v) | Shri C. P. Kawatra | Section Officer. |
| (vi) | Shri C. J. Diwan | Section Officer. |
| (vii) | Shri Sarvanand | Section Officer |

R. K. VERMA, Secretary
(Railway Board)

No. ERB-I/2016/10/18—Shri Vinod Kumar M. B., Section Officer, Railway Board, retired voluntarily from service with effect from the afternoon of 31.01.2016.

R. K. VERMA, Secretary
(Railway Board)

No. ERB-I/2016/10/18—Shri Narender Pal Singh, Private Secretary Railway Board, retired voluntarily from service with effect from the forenoon of 01.02.2016.

R. K. VERMA, Secretary
(Railway Board)

No. ERB-I/2016/10/18—The following officers of Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31.12.2015 :—

- | | | |
|-------|-------------------------|----------------------------------|
| (i) | Muhammed Akhtar | Addl. Member (Staff). |
| (ii) | Shri K. S. Krishnakumar | Addl. Member (Telecom). |
| (iii) | Ms. Shashi Sud | Sr. Principal Private Secretary. |
| (iv) | Ms. Rekha Prakash | Private Secretary. |

R. K. VERMA, Secretary
(Railway Board)

The 2nd March 2016

No. ERB-I/2016/10/18—The following officers of Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 29.02.2016 :—

- | | | |
|-------|---------------------------|------------------------|
| (i) | Shri S. Subramhanyan | Addl. Member (Budget). |
| (ii) | Smt. Bhupinder Kaur Ahuja | Section Officer. |
| (iii) | Smt. Suman Chadha | Private Secretary. |

R. K. VERMA, Secretary
(Railway Board)

New Delhi, the 22nd February 2016

No.E(GP)2014/3/8(Traffic)—The President is pleased to appoint the under-mentioned Group 'B' officers of Traffic Department of Indian Railways, belonging to different Railways as mentioned against each, to Group 'A' /Junior Scale of Indian Railway Traffic Service (IRTS) in the following panels, with effect from the date(s) mentioned against each:-

PANEL FOR 2011-12

S.No.	Name	Railway	
1	Niranjan Padhi	ECOR	Promoted w.e.f. 09.07.2012
2	V.V. Ramanamurthy	SCR	-do-
3	Jaydeb Mondal (SC)	SER	Promoted against SC vacancy w.e.f. 09.07.2012

This is in partial modification of the panels of 2011-12 and 2012-13 issued earlier vide notifications No. E(GP)2009/3/8 (Traffic) dated 27.09.2013, 18.12.2013 and No. E(GP)2012/3/8 (Traffic) dated 21.04.2015 respectively.

PANEL FOR 2012-13

S.No.	Name	Railway	
1	V.A. Iyer	WR	Promoted w.e.f. 04.04.2014
2	V.K. Johri	WR	-do-
3	S.R. Biswas (SC)	SECR	Promoted against SC vacancy w.e.f. 04.04.2014

PANEL FOR 2013-14

1	J.A. Azmi	NER	Promoted w.e.f. 04.04.2014
2	D.S. Meena (ST)	NR	-do-
3	Nirmal Kr. Sinha	NER	-do-
4	J. Arundhati (ST)	SR	Promoted against ST vacancy w.e.f. 04.04.2014
5	Rajeev Seth	NER	Promoted w.e.f. 04.04.2014
6	Giridhara Gopalan A.(ST)	SR	Promoted against ST vacancy w.e.f. 04.04.2014
7	T. Mishra	ECOR	Promoted w.e.f. 04.04.2014

2. The above two panels of 2012-13 and 2013-14 are in partial modification of the earlier panels issued vide notification No. E(GP)2012/3/8 (Traffic) dated 21.04.2015.

3. The appointment of the above officers in the panels of 2012-13 and 2013-14 is, however, subject to the final outcome of WP(C) No. 4365/2014 pending before the High Court of Orissa, Cuttack and O.A. No. 220/2014 pending before CAT/ALD.

PANEL FOR 2014-15

S. No.	Name	Railway	
1	K.C. Rout	SECR	Promoted w.e.f. 16.12.2015
2	Arabinda Das (SC)	NFR	-do-
3	Bhagbat Panda	ECOR	-do-
4	M.M. Pattanayak	ECOR	-do-
5	Lingaraj Nanda	ECOR	-do-
6	A.K. Taldi	ECOR	-do-
7	K.K. George (ST)	SR	-do-
8	Asim Zafar	ER	-do-
9	Subrato Mukherjee	ER	-do-
10	Shambhu Acharjee	ER	-do-
11	Nikhil Kr. Chakraborty	ER	-do-
12	Kartik Singh (ST)	ER	-do-
13	P.S. Punnoose (ST)	CR	-do-
14	R.G. Jethani	WR	-do-
15	K.V. Desai	WR	-do-
16	G.S. Joshi	CR	-do-
17	N.L. Korda	CR	-do-
18	V.A. Bimal Roy (SC)	CR	-do-

S. No.	Name	Railway	
19	R.K. Goswami	NFR	Promoted w.e.f. 16.12.2015
20	Smt. Indrani Banerjee	SER	-do-
21	P.K. Mohanty	ECOR	-do-
22	K.N. Sahoo	ECOR	-do-
23	R.N. Nayak	ECOR	-do-
24	Syed Mastan Babu	SCR	-do-
25	Md. Niyaz Anwar	ECR	-do-
26	Faiaz Mohammad	ECR	-do-
27	Sanjay Pd. Chaudhary (SC)	ECR	-do-
28	A.K. Pandey	ECR	-do-
29	Sachidanand Singh	ECR	-do-
30	R.K. Oraon (ST)	ECR	-do-
31	Govind Chaudhary (SC)	ECR	-do-
32	Pramod Kumar	ECR	-do-
33	Aravind Kumar Roy	ECR	-do-
34	S. Bhattacharya	ECR	-do-
35	Neelesh Kumar	ECR	-do-
36	Bireshwar Das Gupta	ER	-do-
37	Sujoy Kr. Murmu (ST)	ER	-do-
38	Pradip Kr. Mukherjee	ER	-do-
39	Soumya Kishore Banerjee	SER	-do-
40	Subhashis Kolay	SER	-do-
41	K.S. Anand	SER	-do-
42	Sanjib Ghosh	NFR	-do-
43	Arvind Horo (ST)	NFR	Promoted against ST vacancy w.e.f. 16.12.2015
44	Dinesh Bhagat (SC)	ECR	Promoted against SC vacancy w.e.f. 16.12.2015
45	G. Prakash Chandrapal (SC)	WR	-do-
46	V.D. Meena (ST)	NR	Promoted against ST vacancy w.e.f. 16.12.2015
47	P. Selvaraj (SC)	SR	Promoted against SC vacancy w.e.f. 16.12.2015
48	Naveen Raj (SC)	SECR	-do-
49	N. Mahesh (SC)	SR	-do-
50	S.S. Sonawane (SC)	CR	-do-
51	Doddakariappa P.H. (ST)	SWR	Promoted against ST vacancy w.e.f. 16.12.2015
52	Ajoy Banik	NFR	Promoted w.e.f. 16.12.2015
53	V.N. Dwivedi	NFR	-do-
54	Sunil Kumar	ECR	-do-

S. No.	Name	Railway	
55	J.P. Trivedi	ECR	Promoted w.e.f. 16.12.2015
56	B. Venkata Rama Prasad	SCR	-do-
57	S. Vishnuvardhan(SC)	SWR	Promoted against SC vacancy w.e.f. 16.12.2015

RASHMI CHOWDHARY, Executive Director, Estt.(GC)
(Railway Board)

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the March 2016

No. A-31014/01/2011-ISH.II—President is pleased to appoint the following officers to the posts mentioned against their names in the office of Directorate General of Mines Safety, Dhanbad with effect from the date indicated against the name of each officer in a substantive capacity :—

SL. NO.	NAME OF OFFICER (S/SHRI)	NAME OF THE POST	DATE OF SUBSTANTIVE APPOINTMENT
1.	RAJ KISHORE SINGH	DY. Director of Mines Safety (Mining)	05.08.2014
2.	PRAFULL RANJAN THAKUR	-Do-	08.08.2014
3.	KARM DEO RAM	-Do-	18.11.2014
4.	NAYAN SINHA	-Do-	10.12.2014
5.	ANIL KUMAR DAS	-Do-	20.03.2015
6.	SAKET BHARATI	-Do-	16.12.2014
7.	KUMAR RAJIVA KRISHNA KUMAR	-Do-	27.01.2015
8.	VENUGOPLA SWAMY KADEM	-Do-	27.12.2014
9.	NIRANJAN KUMAR	-Do-	18.11.2014
10.	DURGA SHANKER SALVI	-Do-	23.12.2014
11.	RAMESH WALIKAR	-Do-	23.12.2014
12.	TIKESHWAR MAHTO	-Do-	30.12.2014
13.	DAYANAND CHERKU	-Do-	12.3.2015
14.	RAGHU MERUGU	Dy. Director of Mines safety (Electrical)	26.03.2015
15.	PANKAJ KUMAR JAIN	Dy. Director of Mines Safety (Mechanical)	28.01.2015
16.	NARESH GOVIND PHULE	-Do-	24.03.2015

RAJESH KUMAR, Under Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in